



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 पौष 1931 (श0)
(सं0 पटना 6) पटना, सोमवार, 4 जनवरी 2010

सं०3ए-2-वे०पु०(भत्ता)-17/2009-12418/वि(2)
वित्त विभाग

संकल्प

31 दिसम्बर 2009

विषय:- वेतन समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य के सरकारी वाहन चालकों को चालक भत्ता (ड्राईवर भत्ता) की पुनरीक्षित दर की स्वीकृति के संबंध में ।

केन्द्रीय षष्टम आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया था । उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भांति राज्यकर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा वेतन समिति का गठन किया गया ।

(2) राज्य सरकार द्वारा गठित वेतन समिति/त्रिसदस्यीय समिति की अनुशंसा पर सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने सरकारी वाहन चालकों को पुनरीक्षित दर रु0 200 प्रतिमाह एवं बिहार भवन, नई दिल्ली के चालकों को रु0 300 प्रतिमाह चालक भत्ता के भुगतान का निर्णय लिया है ।

(3) यह आदेश दिनांक 1 जनवरी 2010 से प्रभावी होगा ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रबीन्द्र पवार,
सचिव (संसाधन)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 6-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>